

JINDAL SAW LIMITED									
CIN - L27104UP1984PLC023979									
Regd. Off.: A-1, UPSIDC Indl. Area, Nandgaon Road, Kosi Kalan, Distt. Mathura (U.P.)-281403									
Corp. Office : Jindal Centre, 12, Bhikaji Cama Place, New Delhi- 110066									
EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2024									
(₹ in Crores)									
S. No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		Quarter ended		Year ended		Quarter ended		Year ended	
		30.06.2024 Unaudited	31.03.2024 Unaudited	30.06.2023 Unaudited	31.03.2024 Audited	30.06.2024 Unaudited	31.03.2024 Unaudited	30.06.2023 Unaudited	31.03.2024 Audited
1.	Total income from operations	4,417.12	5,006.10	3,830.80	18,232.97	4,984.81	5,493.68	4,447.36	21,125.90
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	601.28	710.33	377.42	2,188.28	583.00	665.80	353.53	2,216.48
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	601.28	710.33	377.42	2,188.28	583.00	665.80	353.53	2,216.48
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	446.15	529.07	279.14	1,614.10	416.43	480.37	244.29	1,592.87
5.	Total comprehensive income for the period /year (Comprising profit/(loss) for the period/ year (after tax) and other comprehensive income (after tax))	445.15	521.48	280.33	1,610.09	411.99	471.74	252.03	1,607.13
6.	Paid up Equity share capital	63.95	63.95	63.95	63.95	63.95	63.95	63.95	63.95
7.	Reserves (excluding revaluation reserve)	10,447.06	10,127.38	8,752.33	10,127.38	10,404.50	10,093.33	8,629.08	10,029.38
8.	Net worth	10,511.01	10,191.33	8,816.28	10,191.33	10,404.50	10,093.33	8,629.08	10,093.33
9.	Outstanding Debt	4,168.91	3,886.92	4,654.47	3,886.92	5,844.69	5,586.54	6,300.38	5,586.54
10.	Debt Equity Ratio	0.40	0.38	0.53	0.38	0.56	0.55	0.73	0.55
11.	Earnings per share (of ₹ 2/- each) (*not annualised)								
	(1) Basic	14.02*	16.64*	8.78*	50.77	13.86*	15.79*	8.33*	52.75
	(2) Diluted	13.96*	16.57*	8.78*	50.70	13.80*	15.72*	8.33*	52.68
12.	Debt Service Coverage Ratio	1.82	2.80	4.89	3.91	1.61	2.50	2.93	3.25
13.	Interest Service Coverage Ratio	6.90	6.81	4.62	5.51	5.78	5.67	4.04	4.95

- Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind AS Rules / AS Rules, whichever is applicable.

Note:
The above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated financial results for the quarter ended on 30th June 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated results for the quarter ended on 30th June 2024 are available on the websites of the Stock Exchanges (www.nseindia.com/ www.bseindia.com) and on the Company's website (www.jindalsaw.com).

On behalf of Board of Directors of Jindal Saw Limited
Sd/-
Sminu Jindal
Managing Director
DIN : 00005317

Place: New Delhi
Date: July 29, 2024

DATA PATTERNS (INDIA) LIMITED				
Registered Office: Plot No. H9, Fourth Main Road, Sipcot It Park, Siruseri, Off Rajiv Gandhi Salai (OMR), Chennai- 603 103; CIN: L72200TN1998PLC061236				
Website: www.datapatternsindia.com; e-mail: investorgrievance@datapatterns.co.in; Phone: +91-44-47414000				
STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE PERIOD ENDED 30TH JUNE 2024				
(Rs in Crores except EPS)				
Sl. No.	Particulars	Quarter ended	Year ended	Quarter ended
		Unaudited	Audited	Unaudited
		June 30, 2024	March 31, 2024	June 30, 2023
1.	Total Income from operations	116.39	565.83	101.30
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary Items)	43.45	242.19	34.88
3.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, after Exceptional and/ or Extraordinary Items)	43.45	242.19	34.88
4.	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/ or Extraordinary Items)	32.79	181.69	25.83
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	32.79	181.06	25.91
6.	Paid up equity share capital (Face value of Rs 2 each)	11.20	11.20	11.20
7.	Reserves (Excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balance Sheet of the Previous Year	-	1,313.01	-
8.	Earnings per equity share (EPS) of face value of Rs 2 each* (for continuing and discontinued Operations) (Basic and Diluted)	5.86	32.45	4.61

*EPS is not annualised for the quarter ended 30 June 2023 & 30 June 2024

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Quarterly Results are available on the websites of Stock Exchanges, i.e., BSE Limited ('BSE') at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited ('NSE') at www.nseindia.com and the Company at https://www.datapatternsindia.com.
2. The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on July 29, 2024.

For and on behalf of the Board
DATA PATTERNS (INDIA) LIMITED
Srinivasagopalan Rangarajan
Chairman and Managing Director
DIN : 00643456

Place: Chennai
Date : July 29, 2024

LIC MUTUAL FUND	
LIC Mutual Fund Asset Management Limited	
(Investment Managers to LIC Mutual Fund)	
CIN No: U67190MH1994PLC077858	
Registered Office: Industrial Assurance Bldg, 4th Floor, Opp. Churchgate Station, Mumbai - 400 020	
Tel.No.022-66016000 Toll Free No. 1800 258 5678 Fax No.022-66016191	
Email: service LICMF@kfintech.com Website: www.licmf.com	
NOTICE NO. 28 OF 2024-2025	
Hosting of the Annual Report of the Schemes of LIC Mutual Fund for the Financial Year ended 31st March 2024	
NOTICE is hereby given that in terms of Regulation 56 of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 and circulars issued from time to time, the Annual Report of all the Schemes of LIC Mutual Fund for the financial year ended 31 st March 2024 has been hosted on the website of LIC Mutual Fund viz. www.licmf.com and on the website of Association of Mutual Funds in India (AMFI) viz. www.amfiindia.com.	
Unitholders can view or download the Annual Report from the website of LIC Mutual Fund or AMFI's website or submit a request for a physical or electronic copy of the Annual Report by any of the following modes:	
1) Calling on toll free number: 1800-258-5678 from 9.00 a.m. to 6.30 p.m., Monday to Saturday; or	
2) Sending an email to service LICMF@kfintech.com from registered email id; or	
3) Sending a duly signed written request to any of the Investor Service Centers of LIC Mutual Fund.	
For LIC MUTUAL FUND ASSET MANAGEMENT LIMITED Sd/- Authorized Signatory	
Date : 29 th July 2024 Place: Mumbai	
As part of Go-Green initiative, investors are encouraged to register/update their email ID and Mobile Number with us to support paper-less communication.	
Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.	

INDIA GLYCOLS LIMITED									
Regd. Office: A-1, Industrial Area, Bazpur Road, Kashipur - 244 713, Distt. Udham Singh Nagar (Uttarakhand)									
Phones: +91 5947 269000/269500, Fax: +91 5947 275315/269535									
Email: compliance.officer@indiaglycols.com, Website: www.indiaglycols.com • CIN: L24111UR1983PLC00907									
Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2024									
(₹ In Crore, except as stated)									
Sl. No.	Particulars	STANDALONE				CONSOLIDATED			
		Quarter Ended		Year Ended		Quarter Ended		Year Ended	
		30.06.2024 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)	30.06.2023 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)	30.06.2024 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)	30.06.2023 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)
1	Total income from operations	2,285.23	2,041.22	1,898.17	7,944.50	2,285.38	2,043.73	1,899.44	7,947.27
2	Profit before interest, depreciation and Tax (EBITDA)	125.43	109.79	101.22	423.48	128.36	109.23	105.81	428.09
3	Net profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or extraordinary items)	62.01	51.13	53.11	202.05	64.93	50.56	57.70	206.65
4	Net profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or extraordinary items)	62.01	51.13	53.11	202.05	75.65	55.60	63.72	223.31
5	Net profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or extraordinary items)	46.74	37.74	40.53	151.73	60.38	42.21	51.14	172.99
6	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	46.78	37.82	40.56	151.92	60.33	42.07	50.96	172.80
7	Equity Share Capital	30.96	30.96	30.96	30.96	30.96	30.96	30.96	30.96
8	Other Equity as shown in the Audited Balance Sheet	-	-	-	1,685.34	-	-	-	2,020.06
9	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each)(Not Annualised) - Basic & Diluted (In ₹)	15.10	12.19	13.09	49.01	19.50	13.63	16.52	55.87

Note:
1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchanges Websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website (www.indiaglycols.com).

for INDIA GLYCOLS LIMITED
Sd/-
U.S. BHARTIA
Chairman and Managing Director
DIN: 00063091

Place : Noida
Date : 29th July, 2024

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA	
	DHARIWALCORP LIMITED
CIN: U24242RJ2020PLC069105	
Our Company was originally incorporated under the name "Dhariwalcorp Private Limited" under the provisions of the Companies Act, 2013 vide Certificate of Incorporation dated June 14, 2020, issued by the Assistant Registrar of Companies, Central Registration Centre. Subsequently, the status of the Company was changed to public limited and the name of our Company was changed to "Dhariwalcorp Limited" vide Special Resolution passed by the Shareholders at the Extra Ordinary General Meeting of our Company held on April 01, 2024. The fresh certificate of incorporation consequent to conversion was issued on May 04, 2024, by Assistant Registrar of Companies/ Deputy Registrar of Companies/ Registrar of Companies, Centralized Processing Centre. The Corporate Identification Number of our Company is U24242RJ2020PLC069105. For further details, please refer to chapter titled "History and Corporate Structure" beginning on page 141 of the Red Herring Prospectus.	
Registered Office: 36, Narayan Nagar, Shobhawaton ki dhani, Pal Link Road, Jodhpur - 342001, Rajasthan, India; Tel No: + 91 70141 31630 E-mail: investor@dharivalcorp.com Website: www.dharivalcorp.com; Contact Person: Ms. Saloni Kachhawaha, Company Secretary and Compliance Officer	
THE PROMOTERS OF OUR COMPANY ARE MR. MANISH DHARIWAL, MS. SHAKSHI DHARIWAL AND MR. DILIP DHARIWAL	
"THE ISSUE IS BEING MADE IN ACCORDANCE WITH CHAPTER IX OF THE SEBI ICDR REGULATIONS (IPO OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES) AND THE EQUITY SHARES ARE PROPOSED TO BE LISTED ON EMERGE PLATFORM OF NSE (NSE EMERGE)."	
THE ISSUE	
INITIAL PUBLIC OFFER OF UPTO 23,72,400 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH (THE "EQUITY SHARES") OF DHARIWALCORP LIMITED ("OUR COMPANY" OR "DHARIWALCORP" OR "THE ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ [●] LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH UPTO 1,23,600 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ [●] LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E., NET ISSUE OF UPTO 22,48,800 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH AT A PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ [●] LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE [●] AND [●] % RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.	
ISSUE PROGRAMME	ANCHOR BID OPENS ON WEDNESDAY, JULY 31, 2024 OPENS ON: THURSDAY, AUGUST 01, 2024 CLOSES ON: MONDAY, AUGUST 05, 2024
ADDENDUM TO RED HERRING PROSPECTUS DATED JULY 25, 2024 ("RHP") NOTICE TO INVESTORS (THE "ADDENDUM TO THE RHP")	
ALLOTMENT PROCEDURE AND BASIS OF ALLOTMENT	
The Allotment of Equity Shares to Bidders other than Retail Individual Investors and Anchor Investors may be on proportionate basis. For Basis of Allotment to Anchor Investors, Bidders may refer to Red Herring Prospectus. No Retail Individual Investor will be Allotted less than the minimum Bid Lot subject to availability of shares in Retail Individual Investor Category and the remaining available shares, if any will be Allotted on a proportionate basis.	
Flow of Events from the closure of bidding period (T DAY) Till Allotment:	
<ul style="list-style-type: none"> On T Day, RTA to validate the electronic bid details with the depository records and also reconcile the final certificates received from the Sponsor Bank for UPI process and the SCSBs for ASBA and Syndicate ASBA process with the electronic bid details. RTA identifies cases with mismatch of account number as per bid file / Final Certificate and as per applicant's bank account linked to depository demat account and seek clarification from SCSB to identify the applications with third party account for rejection. Third party confirmation of applications to be completed by SCSBs on T+1 day. RTA prepares the list of final rejections and circulate the rejections list with BRLM(s)/ Company for their review/ comments. Post rejection, the RTA submits the basis of allotment with the Designated Stock Exchange (DSE). The Designated Stock Exchange (DSE), post verification approves the basis and generates drawal of lots wherever applicable, through a random number generation software. The RTA uploads the drawal numbers in their system and generates the final list of allottees as per process mentioned below: 	
Process for generating list of allottees:-	
<ul style="list-style-type: none"> Instruction is given by RTA in their Software System to reverse category wise all the application numbers in the ascending order and generate the bucket /batch as per the allotment ratio. For example, if the application number is 78654321 then system reverses it to 12345687 and if the ratio of allottees to applicants in a category is 2:7 then the system will identify the lots provided by Designated Stock Exchange (DSE) is 3 and 5 then the system will pick every 3rd and 5th application in each of the lot of the category and these applications will be allotted the shares in that category. In categories where there is proportionate allotment, the Registrar will prepare the proportionate working based on the oversubscription times. In categories where there is undersubscription, the Registrar will do full allotment for all valid applications. On the basis of the above, the RTA will work out the allottees, partial allottees and non-allottees, prepare the fund transfer letters and advice the SCSBs to debit or unblock the respective accounts. 	
Accordingly, the chapter "Issue Procedure" on page 218 of RHP shall stand updated accordingly.	
Further, the RHP dated July 25, 2024 filed with ROC, can be accessed through the link on the website of Shreni Shares Limited at www.shreni.in from the website of Dhariwalcorp Limited at www.dharivalcorp.com, from the website of Stock Exchange i.e. NSE at www.nseindia.com and from the website of SEBI at www.sebi.gov.in	
The above addition is to be read with the RHP and accordingly their references in the RHP stand amended pursuant to this Addendum to the RHP. The information in this Addendum to the RHP supplements the RHP and updates the information as applicable. However, please note that this Addendum does not reflect all the changes that have occurred between the date of filing of the RHP and date hereof, and the information included in the RHP will suitably updated, including to the extent stated in the Addendum to the RHP, as may be applicable in the Prospectus, as and when filed with the ROC, SEBI and Stock Exchange.	
All capitalized terms used in this Addendum to the RHP shall, unless the context otherwise requires, have the meaning ascribed to them in the RHP.	
BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE
SHRENI SHARES LIMITED (FORMERLY KNOWN AS SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED) No. 217, Hive 67 Icon, Poisar Gymkhana Road, Lokmanya Tilak Nagar Poisar, Near Raghuleela Mall, Kandivali West, Mumbai - 400067, Maharashtra, India. Telephone: 022 - 2089 7022 E-mail: shrenishares@gmail.com Investors Grievance e-mail: info@shreni.in Contact Person: Ms. Tanya Goyal Website: www.shreni.in SEBI Registration Number: INM000012759	BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED Office No. S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri East, Mumbai - 400 093, Maharashtra, India. Telephone: 022 - 6263 8200 E-mail: ipo@bigshareonline.com Investor Grievance E-mail: investor@bigshareonline.com Website: www.bigshareonline.com Contact Person: Mr. Vinayak Morbale SEBI Registration Number: INR000001385
Ms. Saloni Kachhawaha, Company Secretary and Compliance Officer 36, Narayan Nagar, Shobhawaton ki dhani, Pal Link Road, Jodhpur - 342001, Rajasthan, India Telephone: +91 70141 31630 E-mail: investor@dharivalcorp.com Website: www.dharivalcorp.com	Investors can contact the Compliance Officer or the Registrar to the Issue in case of any pre-issue or post-issue related problems, such as non-receipt of letters of allotment, credit of allotted shares in the respective beneficiary account, etc.
For Dhariwalcorp Limited Sd/- Mr. Manish Dhariwal Designation: Chairman & Managing Director DIN: 08762566	
Date: July 29, 2024 Place: Jodhpur, Rajasthan	
Dhariwalcorp Limited is proposing, subject to market conditions and other considerations, public issue of its Equity Shares and has filed the Red Herring Prospectus with the Registrar of Companies, Jaipur, Rajasthan on July 25, 2024. The Red Herring Prospectus is available on the website of the Book Running Lead Manager at www.shreni.in, the website of the NSE i.e., www.nseindia.com, and website of our Company at www.dharivalcorp.com	
Investor should note that investment in equity shares involves a high degree of risk. For details, investors should refer to and rely on the Red Herring Prospectus, including the section titled "Risk Factors" of the Red Herring Prospectus, which has been filed with ROC. The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act ("the Securities Act") or any state securities laws in United States and may not be issued or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" (as defined in Regulations under the securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act of 1933.	
AdBaaz	

KICL KOTHARI INDUSTRIAL CORPORATION LIMITED
CIN No. L7410TN1970PLC005865
Regd. Office: 'Kothari Buildings' 114, Mahatma Gandhi Salai Nungambakkam, Chennai – 600 034
Website: www.kotharis.in, Phone No: 044-28334565 Email id: enquiries@kotharis.in

NOTICE is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting (EGM) will be held at 11.00 a.m. on Wednesday, 21st August 2024, through video conferencing / Other Audio-Visual Means ("VC/OAVM").

The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has, vide its circular dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, June 15, 2020, January 13, 2021, December 8, 2021, May 5, 2022, December 28, 2022 and September 25, 2023 (collectively referred to as "MCA Circulars"), permitted convening the Extra Ordinary General Meeting ("EGM") through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM"), without physical presence of the members at a common venue.

In compliance with the aforesaid MCA and SEBI Circulars, the notice of the EGM will be sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/ Depositories. The procedure for remote e-voting and e-Voting on the day of the EGM contains in the Notice. Members may note that the Notice calling the EGM will also be available on the Company's website www.kotharis.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com, and on the website of CDSL at www.evotingindia.com.

Manner of registering/updating email address:
email id viz: companysecretary@kotharis.in/yuvraj@integratedindia.in

- For Physical shareholders - please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to company/rt
- For demat shareholders - Please update your email id & mobile no. with your respective depository Participant (DP).
- For individual demat shareholders - Please update your email id & mobile no. with your respective depository Participant (DP) which is mandatory while e-Voting & joining virtual meetings through depository. Place: Chennai Date: 29.07.2024

By order of the Board
For Kothari industrial corporation limited
Anil Kumar Padihal
Company secretary and compliance officer

Mahua Bharatpur Expressways Limited
Regd. Office: B-376, Upper Ground Floor, Nirman Vihar, New Delhi-110092
CIN - U45203DL2005PLC329748

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2024 (Amount in Rs. Lacs)

Sl No.	Particulars	For the quarter ended		For the year ended	
		30.06.2024 Unaudited	31.03.2024 Unaudited	30.06.2023 Unaudited	31.03.2024 Audited
1	Total Income from Operations	3,008.22	3,134.31	2,615.17	11,505.58
2	Net Profit / (Loss) for the period/year (Before Tax, Exceptional and / or Extraordinary Items)	1,143.49	715.13	636.83	2,258.16
3	Net Profit / (Loss) for the period/year before tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items)	1,143.49	715.13	636.83	2,258.16
4	Net Profit / (Loss) for the period/year after tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items)	1,143.49	612.44	636.83	2,173.05
5	Total Comprehensive Income for the period/year (Comprising profit / (Loss) for the period/year (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	1,144.98	611.84	630.25	2,167.78
6	Paid-up equity share capital (Face value of Rs. 10 each)	9,936.00	9,936.00	9,936.00	9,936.00
7	Other equity (Reserves excluding revaluation reserves)	(8,480.45)	(9,625.43)	(11,162.96)	(9,625.43)
8	Security Premium Account	-	-	-	-
9	Net worth	1,455.53	310.57	(1,226.96)	310.57
10	Paid up debt capital / Outstanding debt	21,748.07	22,491.83	23,172.64	22,491.83
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-	-
12	Debt / Equity Ratio	14.94	72.42	(18.89)	72.42
13	Earning per share (EPS) (Face value of Rs. 10/- each) (for Continuing and discontinued operations)				
	1. Basic	1.15	0.62	0.84	2.19
	2. Diluted	1.15	0.62	0.84	2.19
14	Capital Redemption Reserve	-	-	-	-
15	Debt redemption reserve (Refer note 2)	-	-	-	-
16	Debt Service Coverage Ratio	1.65	3.40	0.21	0.68
17	Interest Service Coverage Ratio	3.68	3.40	2.81	2.97

Notes:

- The above unaudited financial results of the Company for the quarter ended June 30, 2024 have been reviewed and approved by the Audit Committee and Board of Directors in their meeting held on July 29, 2024.
- In the absence of distributable profits, the Company has not created Debenture Redemption Reserve (DRR). The Company is regular in redeeming debentures matured during the period.
- Information as required by Regulation 52(4) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is as per separate Annexure attached, the pertinent disclosures have been made to the BSE Limited and can be accessed on <https://www.bseindia.com>.
- The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the BSE Limited under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the websites of the BSE Limited and on the company website : <https://mbel.co.in/investor-relation/>

For and on behalf of Board of Directors
MAHUA BHARATPUR EXPRESSWAYS LIMITED
Sd/-
Abhijit Sankhyashil Saithe
DIN: 10043944
Director

Place : Noida
Date: July 29, 2024

MAHINDRA MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT PRIVATE LIMITED

Corporate Identity Number: U65900MH2013PTC244758
Registered Office : 'A' Wing, 4th Floor, Mahindra Towers, Dr. G.M Bhosale Marg, P.K. Kurne Chowk, Worli, Mumbai 400 018
Corporate Office: Unit No. 204, 2nd Floor, Amiti Building, Piramal Agastya Corporate Park, LBS Road, Kamani Junction, Kurla (West), Mumbai - 400 070.
Tel: 1800 4196244; website: www.mahindramanulife.com; email id: mfinvestors@mahindra.com

NOTICE NO. 24/2024

Disclosure of Annual Report of the Schemes of Mahindra Manulife Mutual Fund

Notice is hereby given to the Unitholder(s) of the Scheme(s) of Mahindra Manulife Mutual Fund ("the Fund") that in accordance with Regulation 56(1) of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with clause 5.4 of the SEBI Master Circular No. SEBI/HO/IMD/IMD-PoD-1/P/CIR/2024/90 dated June 27, 2024, the Annual Report and Abridged Annual Report of the Scheme(s) of the Fund for the year/period ended March 31, 2024, has been hosted on the Fund's website viz, www.mahindramanulife.com and on the website of AMFI viz, www.amfiindia.com.

Further, Unitholder(s) may also request for a physical or electronic copy of the Annual Report/Abridged Annual Report, by writing to us at mfinvestors@mahindra.com from their registered email ids or calling on our toll free number 1800 419 6244 or by submitting a written request at any of the nearest investor service centers (ISCs) of the Fund (please refer our website www.mahindramanulife.com for the updated list of ISCs).

Investor(s) / Unit holder(s) are requested to take a note of the same.

For Mahindra Manulife Investment Management Private Limited

Place: Mumbai
Date: July 29, 2024

Sd/-
Authorised Signatory

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

NOTICE | **SUNDARAM MUTUAL**
Sundaram Finance Group

Disclosure of Annual Report of the Schemes of Sundaram Mutual Fund

Notice is hereby given to the Unitholders of the schemes of Sundaram Mutual Fund ("the Fund") that in accordance with Regulation 54 and 56(1) of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 and applicable circulars issued from time to time, the Annual Report and Abridged Annual Report of the schemes of the Fund for the year / period ended March 31, 2024 has been hosted on the website of Sundaram Mutual Fund viz, www.sundarammutual.com and on the website of AMFI viz, www.amfiindia.com.

Further, Unitholders may also request for a physical or electronic copy of the portfolio statement of the scheme/s, by writing to us at customerservices@sundarammutual.com from their registered email ids or by calling on our toll number 1860 425 7237 or by submitting a written request at any of the nearest branches (ISCs) of the Fund (please refer our website www.sundarammutual.com for the list of branches).

Unit holders are requested to update their PAN, KYC, email address, mobile number, nominee details with AMC and also advised to link their PAN with Aadhar Number. Further, unit holders can view the Investor Charter available on website of the Fund as well as check for any unclaimed redemptions or Income Distribution (IDCW) Payments

For Sundaram Asset Management Company Ltd
R Ajith Kumar
Secretary & Compliance Officer

Place: Chennai
Date: July 30, 2024

For more information please contact:
Sundaram Asset Management Company Ltd
(Investment Manager to Sundaram Mutual Fund)
CIN: U93090TN1996PLC034615

Corporate Office: 1st & 2nd Floor, Sundaram Towers, 46, Whites Road, Royapettah, Chennai-14.
Contact No. (India) 1860 425 7237, (NRI) +91 40 2345 2215
Fax: +91 44 2841 8108.
www.sundarammutual.com

Regd. Office: No. 21, Patullas Road, Chennai 600 002.

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

INDIA GLYCOLS LIMITED

Regd. Office: A-1, Industrial Area, Bazpur Road, Kashipur - 244 713, Distt. Udham Singh Nagar (Uttarakhand)
Phones: +91 5947 269000/269500, Fax: +91 5947 275315/269535
Email: compliance.officer@indiaglycols.com, Website: www.indiaglycols.com • CIN: L24111UR1983PLC00907

Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2024 (₹ In Crore, except as stated)

Sl. No.	Particulars	STANDALONE				CONSOLIDATED			
		Quarter Ended		Year Ended		Quarter Ended		Year Ended	
		30.06.2024 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)	30.06.2023 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)	30.06.2024 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)	30.06.2023 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)
1	Total Income from operations	2,285.23	2,041.22	1,898.17	7,944.50	2,285.38	2,043.73	1,899.44	7,947.27
2	Profit before Interest, depreciation and Tax (EBITDA)	125.43	109.79	101.22	423.48	128.36	109.23	105.81	428.09
3	Net profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or extraordinary items)	62.01	51.13	53.11	202.05	64.93	50.56	57.70	206.65
4	Net profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or extraordinary items)	62.01	51.13	53.11	202.05	75.65	55.60	63.72	223.31
5	Net profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or extraordinary items)	46.74	37.74	40.53	151.73	60.38	42.21	51.14	172.99
6	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	46.78	37.82	40.56	151.92	60.33	42.07	50.96	172.80
7	Equity Share Capital	30.96	30.96	30.96	30.96	30.96	30.96	30.96	30.96
8	Other Equity as shown in the Audited Balance Sheet	-	-	-	1,685.34	-	-	-	2,020.06
9	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each)(Not Annualised) - Basic & Diluted (in ₹)	15.10	12.19	13.09	49.01	19.50	13.63	16.52	55.87

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchanges Websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website (www.indiaglycols.com).

for INDIA GLYCOLS LIMITED
Sd/-
U.S. BHARTIA
Chairman and Managing Director
DIN: 00063091

Place : Noida
Date : 29th July, 2024

GANGES SECURITIES LIMITED
CIN - L74120UP2015PLC069689
Regd. Office : P.O. Hargaoan, Diet Sitapur (U.P.), Pin - 281 121
Phone No.: (05862) 256220-221; Fax No.: (05862) 256 225
E-mail : gangessecurities@birlasugar.org; Website : www.birla-sugar.com

NOTICE

- Notice is hereby given that the Tenth Annual General Meeting of the Company ("AGM") will be convened on Friday, August 23, 2024 at 11:30 a.m. (IST) through Video Conference ("VC") Other Audio Visual Means ("OAVM") facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with The Ministry of Corporate Affairs', General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and 09/2023 dated September 25, 2023 and other circulars issued in this respect ("MCA Circulars") and further Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide its Circular dated October 7, 2023 ("SEBI Circular"); without the physical presence of the Members at a common venue, to transact the business set out in the Notice calling the AGM. Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM through www.evoting.nsdl.com using your login credentials.
- In compliance with the aforesaid Circulars, Notice of the AGM along with the Annual Report 2023-24 will be sent only by electronic mode to those shareholders whose email addresses are registered with the Company / Depositories. Shareholders holding shares in dematerialized mode, are requested to register their email address and mobile numbers with their relevant depositories through their Depository Participant and shareholders holding shares in physical mode are requested to furnish details to the Company's Registrars and Transfer Agents, Link Intime India Private Limited ("RTA") as instructed at <https://linkintime.co.in>. The Notice of 10th AGM and Annual Report for the Financial Year 2023-24 will also be available on the Company's website at www.birla-sugar.com and on the website of the Stock Exchange, BSE Limited at www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited <https://www.nseindia.com> and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com.
- Members holding shares in physical form who have not registered their email addresses with the Company/ Depository can obtain Notice of the 10th AGM, Annual Report and/or login details for joining the AGM through VC/OAVM facility including e-voting, by sending scanned copy of the following documents by email to gangessecurities@birlasugar.org or kolkata@linkintime.co.in
 - a signed request letter mentioning your name, folio number and complete address;
 - self attested scanned copy of the PAN Card; and
 - self attested scanned copy of any document (such as AADHAR Card, Driving Licence, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Member as registered with the Company.
- Members holding shares in dematerialized mode, who have not registered / updated their email addresses with their Depository Participants, are requested to register / update their email addresses with the Depository Participants with whom they maintain their demat accounts.
- Pursuant to Section 91 of the Act and Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) read with Regulation 42 of the Listing Regulations the Share Transfer Registers of the Company shall remain closed from Saturday, August 17, 2024 to Friday, August 23, 2024 (both days inclusive) for the purpose of AGM, if declared at the AGM.
- Manner of casting vote(s) through e-voting:
 - Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system ("e-voting").
 - The manner of voting remotely (remote e-voting) by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses has been provided in the Notice of the AGM. The details will also be available on the website of the Company at www.birla-sugar.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.
 - The facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM and Members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM.
 - The login credentials for casting votes through e-voting shall be made available to the members through email. Members who do not receive email or whose email addresses are not registered with the Company / RTA / Depository Participant(s), may generate login credentials by following instructions given in the Notice of AGM.
 - The same login credentials may also be used for attending the AGM through VC/OAVM.

For Ganges Securities Limited
Sd/-
Vijaya Agarwala
Company Secretary
ACS 38658

Place: Kolkata
Date : July 29, 2024

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LIMITED
(A Maharatna Company)

REGISTERED OFFICE : 17, JAMSHEDJI TATA ROAD, MUMBAI - 400 020
Website : www.hindustanpetroleum.com, E-mail: corphqo@hpcl.in, CIN No: L23201MH1952GOI008858

EXTRACT OF THE STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2024 (₹ in Crore)

Particulars	Standalone Results			Consolidated Results		
	Quarter Ended		Year Ended	Quarter Ended		Year Ended
	30.06.2024 Un-Audited	30.06.2023 Un-Audited	31.03.2024 Audited	30.06.2024 Un-Audited	30.06.2023 Un-Audited	31.03.2024 Audited
Total Income from Operations	1,20,859.47	1,19,043.69	4,61,637.51	1,20,943.30	1,19,162.26	4,61,969.14
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and Exceptional items)	471.18	8,330.64	19,153.13	805.07	8,946.55	20,500.27
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	471.18	8,330.64	19,153.13	805.07	8,946.55	20,500.27
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	355.80	6,203.90	14,693.83	633.94	6,765.50	16,014.61
Total Comprehensive Income/ (Loss) for the period [comprising Profit / (Loss) for period (after Tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	649.33	6,191.85	15,447.16	919.75	6,771.69	16,788.70
Reserves (excluding Revaluation Reserves)	-	-	39,610.83	-	-	45,502.41
Paid up Equity Share Capital (Face value ₹ 10/- each)	2,127.82	1,418.55	1,418.55	2,127.82	1,418.55	1,418.55
Basic and Diluted Earnings Per Share (₹) (of ₹ 10/- each) (not annualised)	1.67	29.16	69.06	2.98	31.80	75.26
Net Worth	41,676.91	33,902.28	41,029.77	47,838.99	39,032.00	46,921.35
Outstanding Debt	57,404.96	51,697.62	60,253.69	60,301.82	54,357.67	62,813.12
Capital Redemption Reserve	-	105.27	105.27	1.56	106.83	106.83
Debt redemption Reserve	500.00	625.00	625.00	549.43	726.29	674.38
Debt Equity Ratio (Times)	1.38	1.52	1.47	1.26	1.39	1.34
Debt Service Coverage Ratio (Times)	1.40	1.95	1.14	1.51	2.06	1.15
Interest Service Coverage Ratio (Times)	2.73	10.84	6.92	2.91	10.66	6.90

Notes :

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the Company's Webpage - (<http://www.hindustanpetroleum.com/financial>) and Stock Exchange websites (www.bseindia.com) & (www.nseindia.com).
- Previous period figures have been regrouped, wherever necessary.

Place : Mumbai
Date : July 29, 2024

By order of the Board
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
Sd/-
Rajneesh Narang
Director - Finance
(Whole - time Director)
DIN - 08188549

Follow us on: [/hpcl](https://www.facebook.com/hpcl) [/hpcl](https://twitter.com/hpcl) [/hpcl](https://www.instagram.com/hpcl) [Hindustanpetroleum74](https://www.youtube.com/Hindustanpetroleum74) [/hpcl](https://www.linkedin.com/company/hpcl) www.hindustanpetroleum.com

